Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/ 2019-20/1151

Date: November 14, 2019

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai - 400051

Trading Symbol: MAYURUNIQ

BSE Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street. Mumbai - 400001 Scrip Code: 522249

Subject: Newspaper advertisement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and half year ended September 30, 2019

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and half year ended September 30, 2019 published in the English (Financial Express) and Vernacular Language (Nafa Nuksan) newspaper on November 14, 2019.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you,

For Mayur Uniquoters Limited

Rahul Joshi

Company Secretary & Compliance Officer

M.No.ACS33135



A Texture For Every Idea



FINANCIAL EXPRESS

KALYANI FORGE LIMITED

CIN - L28910MH1979PLC020959

Regd. Office: Shangrila Gardens, "C" Wing, 1st Floor, Opp.Bund Garden, Pune - 411 001

TS 16949 & QS 9000 ACCREDITED COMPANY **Unaudited Financial Results For The Quarter Ended**

September 30, 2019

(Rs. In lakhs)

			Quarter En	ded	Period	ended	Year Ende	
Sr. No.	Particulars	30.09.19	30.06.19	30.09.18	30.09.19	30.09.18	31.03.19	
92533		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Income							
	Revenue from operations	5,377	6,656	7,815	12,033	14,824	28,635	
	Other Income	75	106	164	181	174	647	
	Total Revenue (I)	5,452	6,762	7,979	12,214	14,998	29,282	
11	EXPENSES							
	(a) Cost of raw materials and components consumed	2,440	3,599	4,354	6,040	7,723	14,822	
	(b) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	267	(110)	(402)	156	(298)	(327)	
	(c) Employee benefit expense	776	875	948	1,651	1,820	3,640	
	(d) Finance Cost	131	189	218	320	402	759	
	(e) Depreciation and amortisation expense	358	360	380	717	746	1,504	
	(f) Other expenses	1,419	1,770	2,186	3,189	4,106	7,921	
	Total Expenses (II)	5,391	6,683	7,684	12,073	14,499	28,319	
III	Profit before tax (I)-(II)	61	79	295	141	499	963	
IV	Tax Expense		25.47.	20000		3,000	200,200	
	(a) Current tax	12	65	140	77	234	431	
	(b) Deferred tax	10	(36)	(76)	(26)	(107)	(164)	
	('c) Short / (Excess) provision for tax relating to prior years	19	77 11-	D 100 MI	-0.0			
	Total tax expense	22	29	64	52	127	267	
٧	Profit/(loss) after tax (III)-(IV)	39	50	231	89	372	696	
VI	Other comprehensive income			/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	(i) Items that will not be recycled to profit or loss	(59)	(7)	(84)	(65)	(73)	(85)	
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	21	2	28	23	24	28	
ΞÏ	Total other comprehensive income for the period	(38)	(5)	(56)	(42)	(49)	(57)	
VII	Total comprehensive income for the period (V+VI)	2	45	175	47	323	639	
VIII	Earnings per equity share :							
1	Basic (in Rs.)	1.08	1.37	6.38	2.46	10.23	19.13	
	Diluted (in Rs.)	1.08	1.37	6.38	2.46	10.23	19.13	

- 1 This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- 2 The above results for the guarter ended Sep 30, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors at its meeting held on Nov 12, 2019.
- 3 The Company is currently in the process of evaluating the option permitted under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 and continues to recoganise taxes on income for the guarter and half year ended September 30, 2019 as per earlier tax rate provisions.
- 4 The current quarter's results have been adversly impacted due to general slow down in the automobile industry.
- 5 The Company operates in a single segment, i.e., Forging; hence separate segment information is not given.
- 6 Previous quarter's/year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

Pune 12th November, 2019 Visit us at : www.kalyaniforge.co.in

For KALYANI FORGE LIMITED

ROHINI G KALYANI CHAIRPERSON & MANAGING DIRECTOR

M Mayur Uniquoters Limited Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaitpura, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.

Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952 Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2019

(Rs. in Lakhs, except share and per share data, unless otherwise stated)

		Standalone									
Sr. No.			Quarter Ended		Half	Year Ended					
	Particulars	September 30, 2019 (Unaudited)	June 30, 2019 (Unaudited)	September 30, 2018 (Unaudited)	September 30, 2019 (Unaudited)	September 30, 2018 (Unaudited)	March 31, 2019 (Audited)				
1	Total Income from Operations	12,420.84	12,820.31	14,772.25	25,241.15	28,885.65	57,343.12				
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	2,148.17	2,430.05	2,944.43	4,578.22	6,896.82	13,013.15				
3	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax(After Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,148.17	2,430.05	2,944.43	4,578.22	6,896.82	13,013.15				
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,001.26	1,586.21	2,002.75	3,587.47	4,562.67	8,716.66				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	2,045.54	1,605.74	2,004.73	3,651.28	4,566.25	8,724.42				
6	Equity Share Capital	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38				
7	Other Equity [Reserves (Excluding Revaluation Reserve)]		*	<i>e</i> 1	55	*	50,029.01				
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (for Continuing and Discontinued Operations)-										
	1. Basic:	4.42	3.50	4.42	7.91	10.07	19.23				
	2. Diluted:	4.42	3.50	4.42	7.91	10.07	19.23				

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2019 (Rs. in Lakhs, except share and per share data, unless otherwise stated)

		Consolidated									
Sr. No.			Quarter Ended		Half	Year Ended					
	Particulars	September 30, 2019 (Unaudited)	June 30, 2019 (Unaudited)	September 30, 2018 (Unaudited)	September 30, 2019 (Unaudited)	September 30, 2018 (Unaudited)	March 31, 2019 (Audited)				
1	Total Income from Operations	13,092.25	12,735.47	16,094.21	25,827.72	30,124.72	59,126.00				
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	2,353.75	1,654.80	3,474.82	4,008.55	6,994.03	13,209.68				
3	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax(After Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,353.75	1,654.80	3,474.82	4,008.55	6,994.03	13,209.68				
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,191.52	974.05	2,429.50	3,165.57	4,716.39	8,958.77				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	2,154.22	956.90	2,340.07	3,111.12	4,333.20	8,608.07				
6	Equity Share Capital	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38				
7	Other Equity [Reserves (Excluding Revaluation Reserve)]	32	*	12"	23	*	49,530.61				
В	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (for Continuing and Discontinued Operations)-					-					
	1, Basic:	4.83	2.15	5.36	6.98	10.41	19.76				
	2. Diluted:	4.83	2.15	5.36	6.98	10.41	19.76				

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly/Annual Financial Results is available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and the Company's website i.e. www.mayuruniquoters. CDM.

For and on behalf of the Board of Directors

Suresh Kumar Poddar Chairman & Managing Director DIN -00022395

NINA CHESTNEY

JINDAL

Particulars

Total Income from operations

and Exceptional items)

(after Exceptional items)

(after Exceptional items)

income (after tax)

Equity Share Capital

the previous year

www.jindalinfralogistics.com.

Basic (₹)

(2) Diluted (₹)

Place: New Delhi

Date: November 13, 2019

Net Profit/ (Loss) for the year (before Tax

Net Profit! (Loss) for the year before Tax

Net Profit/ (Loss) for the year after Tax

[Comprising Profit/(Loss) for the period

Reserve (excluding Revaluation Reserve)

as shown in the Audited Balance Sheet of

Directors, but have not been subject to audit or review

Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)

(after tax) and Other Comprehensive

Total Comprehensive Income for the period

London, November 13

GROWTH IN GLOBAL DIL

demand is expected to slow from 2025 as fuel efficiency improves

and the use of electric vehicles

increases, but consumption is

NATION

from 2025 on EVs, fuel efficiency: IEA unlikely to peak in the next two

> Agency said on Wednesday. The Paris-based IEA, which advises Westerngovernments on energy policy, said in its annual World Energy Outlook for the period to 2040 that demand

JITF INFRALOGISTICS LIMITED

CIN - L60231UP2008PLC069245

Regd. Office: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403

Standalone

Quarter Ended Half Year Ended

30.09.2019

Unaudited

24.86

13.05

13.05

9.13

9.79

514.07

0.04

0.04

The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly/ annual financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33

of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly/half yearly/annual financial results

are available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website

2) The figure in the consolidated financials results for the quarter ended 30th September 2018 have been approved by the Company's Board of

30.09.2019

Unaudited

24.86

6.78

5.63

514.07

0.02

0.02

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

Year Ended

31.03.2019

23.14

23.14

17.93

19.25

514.07

0.07

0.07

31,437.66

Growth in global oil demand to slow

growth would continue to decades, the International Energy increase even though there would be a marked slowdown in the 2030s. The agency's central scenario - which incorporates existing energy policies and announced targets - is for demand for oil to riseby around 1

Consolidated

30.09.2019

40,385.28

(3,699.59)

(3,699.59)

(4,799.20)

(4,773.91)

514.07

(18.24)

(18.24)

Quarter Ended | Quarter Ended | Half Year Ended

19,522.08

514.07

(11.02)

(11.02)

For and on behalf of Board of Directors of JITF Infralogistics Limited

30.09.2018 30.09.2019

4.56 (2,095.33)

4.56 (2,095.33)

5.87 (2,890.19)

514.07

0.02

0.02

million barrels per day (bpd) on average every year to 2025, from 97 million bpd in 2018.

Demand is then seen increasing by 0.1 million bpd a year on average during the 2030s to reach 106 million bpd in 2040.

"There is a material slowdown after 2025, but this does not lead to a definitive peak in oil use," the IEA said, citing increased

> the shipping, aviation and petrochemical sectors. The IEA has been critidised by groups concerned about climate change who say the outlook underplays the speed at which the world could switch to renewable energy and

demand from trucks and

undermines efforts to keep increases in global temperatures within 1.5. 2 degrees Celsius. This year, the IEA renamed its main scenario "Stated Policies", instead of "New Policies", to clarify that it reflects current policies. It is one of three scenarios used to show how energy demand could evolve over the next two

decades. This change is an improvement, said Joeri Rogeli of the Grantham Institute at Imperial College London. However, the IEA's most ambitious scenario "remains inconsistent with 15 Cand several aspects of the Paris Agreement and doesn't present a scientifically consistent narrative", he added.

MAYURBHANJ TRADES AND AGENCIES LIMITED CIN:-L24117WB1979PLC023322

Regd. Office: 7 WATERLOO STREET, 2ND FLOOR, KOLKATA-700069 Website: www.mayurbhanjtrades.in; Email:info.mayurbhanj@gmail.com; Ph No.: 033 2248 0602 street of Statement of Unavidited Einspriel Requite for the Austria and half-year and distance and Sentember 30, 2019.

SI. No	Particulars	Quarter ended 30-Sep-2019 (Unaudited)	Half-year ended 30-Sep-2019 (Unaudited)	Quarter ended 30-Sep-2018 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	22.68	49.15	22.70
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.17	2,51	1.33
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.17	2.51	1.33
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.17	2.51	1.33
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.64	5,98	1.33
6	Equity Share Capital	20.00	20.00	20.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised)			
	Basic :	2.32	2.99	0.66
	Diluted :	2.32	2.99	0.66

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity www.mayurbhanitrades.in

Ind AS compliant Financial results for the quarter and half-year ended September 30, 2019 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on November 13, 2019

For and on behalf of the Board of Directors

Satya Narayan Ashopa Place: Kolkata (DIN -00379772) Date: 13.11.2019 Whole-Time Director & CFO

OYAL equipments limited

(CIN: L29190GJ2007PLC050607) Regd. Office: Block No. 35/1-2-3-4, Village-Zak, Dahegam, Gandhinagar-382330. Gujarat, India. Tel No.: +91-2718-247236, Fax No.: +91-2718-269033 E-mail: cs@loyalequipments.com, Website: www.loyalequipments.com

Extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter & Half Year ended September 30, 2019

j.				Amt. in '000)	
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30/09/2019	Quarter Ended 30/06/2019	Previous Year Ended 31/03/2019	
(3)(4)		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	79634.81	28710.29	414425.21	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	3359.82	1282,38	62348.64	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3359.82	1282.38	62348.64	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	1949.37	1309.25	45043.16	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1949.37	1309.25	45146.24	
6	Equity Share Capital	102000.00	102000.00	102000.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)			77455.04	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1.Basic:	0.19	0.13	4.43	

Note:

2.Diluted:

 These results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on November 13, 2019. 2. The Company had acquired the wholly owned Subsidiary in the guarter ended

0.19

0.13

- March 31, 2019, hence the Consolidated results for corresponding guarter ended of Previous year is not applicable. 3. Information on Standalone Un-audited Financial Results of the Company is as

Particulars	Ended 30/09/2019	Ended 30/06/2019	Ended 30/09/2018	Year Ended 31/03/2019	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Turnover	79634.81	28710.29	87431.02	414425.21	
Profit before tax	3359.82	1282.38	14232.60	62348.64	
Profit after tax	1949.37	1309.25	9701.62	45043.16	
Total Comprehensive Income	1949.37	1309.25	9701.62	45146.24	
	Turnover Profit before tax Profit after fax	Particulars Ended 30/09/2019 Unaudited Unaudited Turnover 79634.81 Profit before tax 3359.82 Profit after tax 1949.37	Particulars Ended 30/09/2019 Ended 30/06/2019 Unaudited Unaudited Unaudited Turnover 79634.81 28710.29 Profit before tax 3359.82 1282.38 Profit after tax 1949.37 1309.25	Ended 30/09/2019 Solve Ended 30/09/2019 Solve Ended 30/09/2018	

financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and half yearly un-audited financial results is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.loyalequipments.com). By order of the Board For Loyal Equipments Limited

The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly

Alkesh Rameshchandra Patel (Managing Director) Date: 13.11.2019 (DIN: 02672297

ALORA TRADING COMPANY LIMITED CIN NO:L70100MH1882PLC286275

Sd

(₹ lacs)

(Refer note 2)

514.07

(11.44)

(11.44)

Year Ended Quarter ended

31.03.2019 30.09.2018

58,217.31 12,898.40

11,817.02) (3,064.95)

(11,817.02) (3,064.95)

(11,379.41) (3.000.16)

(11,233.76) (2,933.56)

514.07

(43.01)

(43.01)

Amarendra Kumar Sinha

Whole Time Director

DIN: 08190565

(37,439.23)

Reg. Olllice: 1. Gr. Floor. Plot No. 37/39. Rajyog Building, Cerpemer 1st Street, C. P. Tank. Girgaon, Mumbai - 04 Phone: +91 85903 05070 Email: a loral rading company@gmail.com: Website: www.aloratradingtld.com

Extracts of the Statement of Un- audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2019. (Rs. in Labbs except for the Earning Per Share)

81		in a rank and has an arrange a share i										
	Particulars	Quarter ended 30.09.2019 (Unaudited)	Hall Year ended 30.09.2019 (Unaudiled)									
1	Total Income from operations (net)	1109.01	2831.28	107.35								
+	Net Profit/(Loss) for the period											
1	(before tax and exceptional flems)	3.09	6,93	(0.49)								
1	Net Profit/(Loss)for the period before fax	8000	6555	⊕KY19Cate								
ı	(after exceptional flams)	3.09	6.93	(0.49)								
1	Net Profit / (Loss) for the period after tax	3.09	6.93	(0.49)								
1	Total Comprehensive Income for the period	3.09	6.93	(0.49)								
1	Pald-up Equity Share Capital											
+	(Share of As. 10/- each)	1244.25	1244.25	1244.25								
K	Earning per equity share	20200	85700	1050000								
4	Basic	0.002	0.01	0.004								
5	The state of the s											

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Result for the quarter and half year ended is available on the website of the Stock Exchange

Figures of the previous year have been re-grouped/re-arranged/re-classified wherever

considered necessary. For Alora Trading Company Limited

Place: Mumbal Date: 12h November, 2019

Veepul Gohill Managing Director DIN: 05322517

0.002

0.01

0.004



NDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED Regd. Office: Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi - 110 076 (India) Corporate Identity Number: L24232DL1988PLC030958
Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629
E-mail: imcl@apollohospitals.com, Website: delhi.apollohospitals

NOTICE

Transfer of Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority Pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, notice is hereby given to the shareholders of the Company that all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of IEPF

The Company has already sent individual communication to the latest available addresses of the shareholders, whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF authority and advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded the statement containing the names of the shareholders, whose shares are due for transfer to the demat account of IEPF Authority, with their folio number or DP ID-Client ID on its website at delhi.apollohospitals.com

In case, the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 12th December, 2019, the Company will proceed to transfer the shares to the demat account of the IEPF Authority without any further notice, as per procedure stipulated in the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF authority, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority. Please note that on issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) which stand registered in their name will be deemed cancelled and non-negotiable. In cases, shares are held by concerned shareholders in demat form and are liable to be transferred to demat account of IEPF authority, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of such shares to the demat account of IEPF Authority.

The Concerned shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority, as per the above mentioned Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to IEPF.

The concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said shares(s) along with the dividend(s) from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

For any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) - M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: Indraprastha Medical Corporation Limited at Noble Heights, 1st Floor, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058.

For Indraprastha Medical Corporation Limited

Ajay Kumar Singhal Vice President cum Company Secretary

epaper financia press.com

Date: November 12, 2019

Place: Jaitpura, Jaipur

Place : Dahegam, Gujarat

Date: November 13, 2019

New Delhi

Place: New Delhi



जयपुर गुरुवार 14 नवंबर, 2019

2

बिजनस@ इंडिया

√ मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय एवं फैक्ट्री : जयपुर सीकर ग्रेंड्, गांव जैतपुर, तहसील चीम्, जिला जयपुर, 303704 (राजस्थान) भारत वेबसाइट www.mayuruniquoters.com ईमेल : secr@mayur.biz टेलीफोन : 91-1423-224001 फैक्स : 91-1423-224420 सीआईएन : एल18101आस्त्री1992पीएलसी006952

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक के लिए एकीकृत और समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रूपये लाखों में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा)

	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.	एकोकृत						समेकित					
15.	and the second of the second	CONTRACTOR AND STREET	समाज तिमाही			रदंवार्षिक	समाप्त वर्ष	वर्षे समाप्त तिमाही		t	समाप्त अय	देवार्षिक	समाप्त वर्ष
花	विवाण	30.09.2019 अन्यसंक्रीकृत	30.06.2019 अन्यतिहास	30.09.2018	30.09.2019 अनुअंकेशित			30.09.2019 সন্মকীয়ন	30.06.2019 अनुअंकेक्षित	30,09.2018 अनुअंकेकित	fil WeststättefarfragterOctorilli	30.09.2018 अस्त्रअधिकित	
7.	परिचालन में कुल आप	12,420.84	12,820.31	14,772.25	25,241,15	28,845.65	57,343.12	13,092.25	12,735.47	16,094.21	25,827.72	30,124.72	59,126.00
2	अर्थाय के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अमामान्य तथा/वा असाधारण महीं से पूर्व)	2,148.17	2,430,05	2,944.43	4,578.22	6,896.82	13,013.15	2,353.75	1,654.80	3,474.82	4,008.55	6,994.03	13,209.68
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य तथा/वा असाधारण महों के परधात)	2,148.17	2,430.05	2,944.43	4,578.22	6,896.82	13,013.15	2,353.75	1,654.80	3,474,82	4,008.55	6,994.03	13,209.68
4.	अवधि के लिए कर पत्रवात शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य तथा/या असाधारण महाँ के पत्रवात)	2,001,26	1,586.21	2,002.75	3,587.47	4,562.67	8,716.66	2,191.52	974.05	2,429.50	2,165.57	4,716.39	8,958,77
	अवधि के लिए कुल खापक आमदनी (अवधि के लिए (कर पत्र्यात)लाभ/(इनि) युक्त) तथा अन्य खापक आमदनी (कर पत्र्यात))	2,045.54	1,605.74	2,004.73	3,651.28	4,566.25	8,724.42	2,154.22	956.90	2.340,07	3,111.12	4,333.20	8,608.07
6.	सामान्य अंश पृंजी	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,264.38	2,266.38	2,266.38	2,266,38
	रिजर्व (पूर्वमूल्यांकन संचय के अलावा) पिछले वर्ष के अकेक्षित चिद्ठा के अनुसार			1			50,029.01				1		49,530.6
5.	प्रति शेवर अर्थन (र.५/- प्रत्येक का) (जारी तथा स्थापत प्रचालनों हेतु) (1) मृतः (2) पुलितः	4.42	3.50 3.50	4.42	7.91 7.91	10.07	19.23	4.83	2.15 2.15	5.36 5.36	6.91	10.41	19.76

उपर्युक्त सेथी (विनियमन और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही/छमाही/वार्षिक वितीय परिणामों के विस्त् प्रारूप का एक सार है। तिमाही /छमाही/ वार्षिक वितीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेयसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com और कंपनी की वेयसाइट या www.mayuruniquoters.com की वेयसाइटों पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल की ओर

स्थान : जैतपुरा, जयपुर दिनांक : नवम्बर 12, 2019 सुरेश कुमार पो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश DIN-00022